

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022 — चैत्र 29, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अप्रैल 2022

सूचना

क्रमांक एफ 11-32/2021/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायगढ़	लैलूंगा	मुकड़ेगा	राजस्व निरीक्षक मंडल केशला के पटवारी हल्का क्र. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, एवं 31 के कुल 29 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मंडल मुकड़ेगा के पटवारी हल्का क्र. 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 के कुल 35 ग्राम. अतः कुल 18 पटवारी हल्के के 64 ग्राम नवीन तहसील "मुकड़ेगा" में शामिल होंगे।	उत्तर — तह. लैलूंगा, जिला रायगढ़ दक्षिण — तह. तमनार, जिला रायगढ़ पूर्व — तह. लिफरीपारा, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) एवं तहसील कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) पश्चिम— तह. घरघोड़ा एवं लैलूंगा, जिला रायगढ़
प्रस्तावित परिवर्तन के कारण — प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण					

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 19th April 2021

NOTICE

No. F 11-32/2021/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tahsil specified in column (3), to create a new Tahsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Raigarh	Lailunga	Mukdega	Total 29 villages of Patwari halka no. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 and 31 of Revenue Inspector Circle Keshala Total 35 villages of Patwari halka no. 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 and 38 of Revenue Inspector Circle Mukdega Hence 64 villages of total 18 patwari halka shall be included in New Tahsil Mukdega	North - Tahsil Lailunga, Dist. Raigarh South - Tahsil Tamnar , Dist. Raigarh East - Tahsil Lifripara, Dist. sundargarh (Odisha) and Tahsil Kunkuri, Dist. Jashpur (C.G.) West - Tahsil Gharghoda and Lailunga Dist. Raigarh
Reasons for proposed change – Administrative decentralization					

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.